







## HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L31300DL1959PLC003141 Regd. Office: Kanchenjunga (7<sup>th</sup> Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Phone: +91-11-23310001-05 (5 Lines), E-mail: huil@hindusthan.co.in, Website: www.hindusthanurban.com

Date: 29th August, 2023

To, The Listing Department, BSE Limited. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 539984

Sub: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In terms of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in compliance with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company has published the information regarding the 63<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Saturday, 30<sup>th</sup> September, 2023 at 11:00 A.M. (IST) through video conferencing/other audio visual means ('VC/OAVM') and other related information in the 'Financial Express' (English) and in 'Jansatta' (Hindi) Newspaper edition dated 29th August, 2023.

Further, in pursuance of Regulation 30 read with Schedule III (A) (12), please find enclosed the copy of Newspaper articles as published in above mentioned newspapers. The same has also been made available on the Company's website at www.hindusthanurban.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Hindusthan Urban Infrastructure Limited

(M.L. Birmiwala) **President-Finance & Secretary** 

## TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

## POSSESSION NOTICE

(As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tala Capital Financial Services Ltd., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 11.05.2023 calling upon the Borrower & Co-Borrowers/Guarantors i.e., (1) M/s, Zee Production House, Shop No. 136, MP Mall, Pitampura, Delhi - 110088; (2) Mrs. Dimple Bhasin, Wo Mr Rajesh Bhasin; (3) Mr. Rajesh Bhasin, S/o Mr. Ram Nath Bhasin; and (4) Ms. Monika Bhasin All R/o. H. No. 4/2 A, 1st Floor, Near MCD School, Vijay Nagar Double Storey, North West Delhi Delhi - 110009; Also At: Plot No. 12, 2nd Floor, Shani Mandir Road, Kalyan Vihar, Delhi 110009 to repay the amount mentioned in the Demand Notice being Rs. 26,26,521/- vide Loan Account Nos. TCFLA0359000011076396 and TCFLA0359000010891119 along with interest plus pena interest charges, costs etc. within 60 days from the date of the said notice.

The borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken symbolic/constructive possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 26th day of August, 2023. The borrowers, in particular, and the public, in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Tata Capita Financial Services Ltd, for an amount Rs. 26,26,521/- as on 11.05.2023 alongwith interes thereon and penal interest, charges, costs etc.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

PROPERTY NO. 1, UNIT NO. 137, 1ST FLOOR, WITHOUT ROOF RIGHTS, M. P. MALL PLOT NO. SU (L.S.C.), BLOCK - MIP, PITAMPURA, DELHI - 110088, HAVING COVERED AREA 111.66 SQ. FT. MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN SALE DEED DATED 26.08.2019 EXECUTED IN FAVOUR OF MRS. DIMPLE BHASIN DULY REGISTERED AS DOC. NO. 13225, BOOK NO. 1, VOL. 8639 ON PAGES 174 TO 191 REGISTERED ON 30.08.2019.

Place: Delhi Date: 29/08/2023

Sd/- Authorised Officer For TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD

**Brilliant Portfolios Limited** 

Regd. Off. B-09, 412, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110088 Ph. No. 011 -45058963, CIN: L74899DL1994PLC057507 Email ID: brilliantportfolios@gmail.com, Website: www.brilliantportfolios.com NOTICE OF TWENTY NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Ninth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Sunday, 24th September, 2023 at 11:30 a.m. (IST) through electronic mode i.e. Video Conference or Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM") to transact the business as set out in the notice convening the AGM. The AGM is held through electronic mode in accordance with the Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars").

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of 29th AGM along with the Annua Report for FY 2022-2023 will be sent through electronic mode only, to those Members whose E-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with Depository Participant ("DP")/ Depository. Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their

DPs in case Shares held in dematerialized form and Company/RTA in case shares are held by them in physical form at RTA's email id investor@masserv.com under copy marked to company a The Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-2023 will also be available on Company's website

www.brilliantportfolios.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice will also be available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com Members can attend and participate in the AGM only through VC/OVAM. The procedure and instructions for joining the AGM through VC/OVAM are stated in the Notice.

The Detailed procedure and instructions for casting votes through remote e-voting during the AGM for all Members (including the Members holding shares in physical model whose-mail addresses are not


**Brilliant Portfolios Limited** 

Place: New Delhi

Company Secretary

#### AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED Regd. and Corporate Office address: Fulcrum Business

Centre, 001 & 002, A Wing, Next to Hyatt Regency Hotel,
Sahar Road Andheri (East), Mumbai- 400 099 Maharashtra. AVANSE FINANCIAL
SERVICES APPENDIX-IV [rules 8(1)]



Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Avanse Financial Services Ltd., Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Said Act") and in exercise of powers

conferred under section 13(12) read with rules 3 of the Security Interest (Enforcement Rules, 2002 ("said Rules") issued a Demand Notice dated 29/05/2023 in Loan Account numbers DELCS00037167 & DELCS00167649 ("Loan Account") respectively calling upon the Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors/Mortgagors being, (i) Shri Shyam Bihari Shiksha Samiti (ii) Manju (iii) Kuldeep Chaudhary (iv) Mahender Singh (v) Raj Singh (vi) Lakhiram (Collectively to be referred to as "Borrowers") to repay the amount mentioned in the aforesaid demand notice outstanding as on 26th May 2023 inclusive of interest charged up to 26th May 2023 and further interest thereon together with incidenta expenses, cost, charges etc., till the date of final payment and/or realization within 60 days from the date of receipt of the said notice (details also described in the table given below):

Borrowers/ Co-Borrowers/Mortgagors	Loan Account Number	Amount Outstanding as on 26th May 2023
(i) Shri Shyam Bihari Shiksha Samiti (ii) Manju (iii) Kuldeep Chaudhary (iv) Mahender Singh (v) Raj Singh (vi) Lakhiram	DELCS 00037167 & DELCS 00167649	Rs. 18,58,188/- (Rupees Eighteen Lakhs Fifty-Eight Thousand One Hundred Eighty- Eight Only).

The aforesaid Borrowers having failed to repay the aforesaid amounts, notice is hereby given to the Borrowers/Co-borrowers/Guarantors/Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the Immovable property described in the Schedule herein ("Immovable Property") in exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said rules on this 26th Day of August this year 2023.

The Borrowers/Co-borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Property and any dealings with the Immovable Property will be subject to the charge of the Avanse Financia Services Ltd., for an aggregate amount of Rs.18,58,188/- (Rupees Eighteen Lakhs Fifty-Eight Thousand One Hundred Eighty-Eight Only) and further interest thereon til the date of final payment and/or realization in aforesaid Loan Account.

The 'Borrowers' / Co-borrowers' / Guarantors' / Mortgagors' attention is invited to the provisions of Section 13(8) of the Said Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

### DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY First and Exclusive charge on all piece & parcel of the property located at Land and

building of Shri Shyam Bihari Junior High School situated at Khata no. 368, Khasra no. 1408 min, Village - Kharaut, Shahpur Road, Kosi Kallan, Tehsil Chhata, District Mathura Uttar Pradesh 281403 within the following boundaries: Boundaries:- North - Land Bhoopram East - Road Shahpur Road, West - Land Bhoop Ram, South-Borrower's Property.

Date: 26th August' 2023 Place: Kosi, Mathura

Authorised Officer For Avanse Financial Services Ltd.

Branch Office - Axis Bank Limited, SBB LOAN CENTER SCO-221, 2nd AXIS BANK Floor, Paramieet Tower, Sector-12, Karnal-132001 Corporate Office: 3rd Floor, Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhakar Marg, Worli, Mumbai-400 025 Registered Office: 'Trishul', 3rd floor, opposite Samartheswar Temple,

#### Law garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas The undersigned being the Authorized officer of Axis Bank Limited under the Securitization Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notice mentioned below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Passession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13/4) of the said Act read with Rule 8 of the said on the below mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AXIS BANL LTD. Name Of Co-borrower And Guarantor Name / Address: 1. Mr. Ishwar S/o Kishan Singhrio

House No. 2585, Adarsh Nagar, Malerna Road, Near Navvoti School, District Faridabad, Harvana-121004 2. Mrs. Raj Bala W/o Ishwar, R/o House No. 2585, Adarsh Nagar, Malema Road, Near Navyoti School, District Faridabad, Haryana-121004 Also At Mrs. Raj Bala W/o Ishwar, R/o House No. 92/1, Village Jawan, Near Chaupal District Faridabad, Haryana-121004 Description of Property: All that part and parcel of the Property EM Part of Equitable mortgage of Non-Agri, Residential Property Situated at Plot No. 2585, Adarsh Nagar, /Malema Road, Ballabgarh, District Faridabad, Haryana, Admeasuring 150 Sq. Yards in the name of Mr. Rajbala W/o Ishwar Singh, vide Sale deed no. 10157, which is bounded as under: Boundaries (As Per

Document): North-Others Property, South-Road/entry, East - Property Of Pawan Sha, West-Date of Demand Date Of Symbolic Outstanding Amount: Rs.24,64,412/-(Twenty Notice : Possession: Four Lakh Sixty Four Thousand Four Hundred 10-May-2023 Twelve Only) 25 - Aug-2023

The above-mentioned borrowers(s)/ co-borrower(s) / guarantors(s) are hereby given a 30 days' Notice to epay the amount, else the mortgaged properties willbe sold on the expiry of 30 days' from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement)

Date: 29-08-2023, Place: Karnal

Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED ADITYA BIRLA CAPITAL Registered Office- Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat – 362266 Branch Office - No N/17, 1st Floor, Vijaya Building Barakhamba Road New Delhi - 110001

APPENDIX IV See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Possession Notice (for Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued a demand notice dated 13-03-2023 calling upon the borrowers Datar Singh, Vasu Kanwar, seeking repayment of the amount mentioned in the notice being of Rs. 44,71,895.5/- (Rupees Forty-Four Lakh Seventy-One Thousand Eight Hundred Ninety-Five and Five Paise Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act. read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 26th Day of August of the year, 2023.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of Rs. 44,71,895.5/-(Rupees Forty-Four Lakh Seventy-One Thousand Eight Hundred Ninety Five and Five Paise Only) and interest thereon. Borrowers' attention is invited to the provisions of Sub-section 8 of Section 13 of the Act., in respect of time available, to redeem the secured assets. **Description of the Immovable Property** 

Entire Second Floor, Without Roof/Terrace Rights, In Pocket 11b, Land Area Measuring 32 Sq. Mtrs., Situated In The Layout Plan Of Rohini Residential Scheme, Rohini, Sector-23, New Delhi-110085, And Bounded: North: Plot No. 315 South: Entry East: Plot No. 293 West: Plot No. 295

Entire Second Floor, Without Roof/Terrace Rights, In Pocket 11b, Land Area Measuring 32 Sq. Mtrs., Situated In The Layout Plan Of Rohini Residential Scheme, Rohini, Sector-23, New Delhi-110085, And Bounded: North: Plot No. 314 South: Entry East: Plot No. 294 West: Plot No. 296. **Authorised Officer** 

Place: New Delhi

Aditya Birla Housing Finance Limited



### UNIPRODUCTS (INDIA) LTD. Registered Office: Jarthal Village Road, 84 Km. Stone, Delhi- Jaipur Road,

P.O. Sangwari, Distt. Rewari, Haryana-123401 Website: www.unitexindia.com; Email: uniproducts@unitexindia.com; Phone: 8222999202; CIN: U45201HR1982PLC014785

NOTICE

- Shareholders may note that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held over Video Conference("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility on Wednesday, September 27, 2023 at 5:30 P.M. IST in compliance with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022 and 10/2022 all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the Notice
- As per the above circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2022-2023 shall be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail ld are already registered with the Company/ Depository. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier
- Manner of registering/updating email addresses: (i) Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated
- their e-mail addresses with the Company are requested to register/update the same by writing to Registrar & Transfer Agent ("RTA"), MAS Services Limited at investor@masserve.com with details of folio number and attaching a self-(ii) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their
- e-mail addresses with the relevant Depository Participant The notice of the 40th AGM and Annual Report for Financial Year 2022-23 will also
- be made available on the Company's website at www.unitexindia.com. The AGM Notice can also be accessed from the websites of NSDL (agency for providing the Remote e-voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business
- as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders Members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of the
- AGM and in particular instructions for casting vote through e-voting at the AGM. For Uniproducts (India) Limited

Place: Noida Date: 28.08.2023

Meghna Kashtwal Company Secretary Membership No. A52023

## PANASONIC AVC NETWORKS INDIA COMPANY LIMITED CIN:U74899DL1996PLC077330 Regd. Office: D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, India

### (For the attention of Equity Shareholders of the Company) Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education & Protection Fund (IEPF)

Telephone: 0120-4024500 | Email: neeraj.khanna@in.panasonic.com

This notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to the provision of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 6(3)(a) of Investor Education & Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("The IEPF ules") as amended from time to time.

The Act and the Rules provide for the compulsory transfer of equity shares, in respect of which dividend remains unpaid/unclaimed for a period of seven consecutive years or more, to IEPF. Adhering to the aforesaid requirements, the Company is communicating individually

to such shareholders whose dividend remains unpaid/unclaimed for seven consecutive years commencing from the Financial Year 2015-16, requesting them to claim the same by 26th November, 2023, by following the procedure laid down in the correspondences being sent to them. In the absence of the receipt of a valid claim by the shareholders within the afore-mentioned time frame, the Company will transfer the said shares to IEPI authority in accordance with the IEPF Rules. The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are

liable to be transferred to IEPF may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of share(s) to the DEMAT account of the IEPF Authority. Upon issue of such new shares certificate(s), the original share certificate(s) which are registered in their name(s) will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of such shareholders holding shares in DEMAT form, the transfer of shares to DEMAT account of IEPF Authority as indicated herein above shall be effected by the Company through the

respective Depositories by way of Corporate Action. Pursuant to the provisions of the IEPF Rules, the Company has sent individual notices to the latest available addresses of the shareholders whose dividends are lying unpaid, unclaimed for seven consecutive years or more, inter-alia, providing details of shares to

The shareholders may note that the Company has uploaded the updated list of the shareholders along with Folio No./DPID and Client ID whose shares are liable to be transferred to DEMAT account of the IEPF authority on the website of its Registrar & Share Transfer Agent (RTA) at www.skylinerta.com for information and necessary action by the shareholders. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its RTA's website shall be deemed to be adequate notice for the issue of new share certificates(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the DEMAT account of the IEPF Authority.

Any further dividend/benefit, if any, in respect of shares so transferred shall also be credited

to IEPF. No claim shall lie against the Company in respect of the dividend and shares transferred to the IEPF Authority. On transfer of dividends and shares to IEPF, Shareholders may claim the same by making an application to IEPF Authority as per the IEPF Rules. The Concerned shareholders are once again requested to claim their unclaimed dividends immediately on receipt of this Notice, within the aforesaid timeline, failing which the Company shall, in adherence to the requirement of Act and rules, transfer the shares to the DEMAT account of the IEPF Authority on which dividend remains unpaid/ unclaimed

For any clarification on the matter, shareholders may kindly contact the Company's RTA Skyline Financial Services Pvt. Ltd, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-New Delhi-110020, Telephone: 011-40450193-97, Email: info@skylinerta.com admin@skylinerta.com.

> For Panasonic AVC Networks India Company Limited Neeraj Khanna **Company Secretary**

## MARBLE CITY INDIA LIMITED (Formerly Known as P G Industry Limited)

Regd. Off: A - 30, S - 11, Second Floor, Kailash Colony, New Delhi - 110048 CIN: L74899DL1993PLC056421 pgindustryftd@gmail.com

www.pgil.com

NOTICE OF 30<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING (Pursuant to Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020)

## The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated December 08, 2021, May 05, 2022, December 14, 2022, and December 28, 2022 read with

circulars dated January 13, 2021, May 5, 2020, April 8, 2020 and circular dated April 13, 2020 permitted the holding of AGM through Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act. 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the upcoming AGM of the Company will be held on Friday, 22<sup>th</sup> September 2023 at 04.00 P. M. through VC/OAVM. As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for F.Y.

2022-2023 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositories. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM

along with annual report for F.Y. 2022-2023 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depositary, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for F. Y. 2022-2023 and login details for e-voting. Physical Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS

Holding | Services Limited at info@massery.com providing Folio number. Name of

the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd floor, Okhla Industrial Area Phase -- II, New Delhi - 110020 along with letter mentioning folio no. if not registered

PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 15/09/2023

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email Holding address as per the process advised by DP.

PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 15/09/2023

already.)

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-2023 will also be available on Company's website - www.pgil.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

For Marble City India Limited

Saket Dalmia Managing Director (DIN: 00083636) # HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: Kanchenjunga, (7th Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 CIN: L31300DL1959PLC003141,

E-mail: investors@hindusthan.co.in Website: www.hindusthanurban.com. Phone: +91-11-23310001-05

INFORMATION REGARDING 63<sup>10</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM')

This is to inform that the 63° Annual General Meeting ('AGM') of Hindusthan Urban Infrastructure Limiter ('the Company') will be held on Saturday, 30" September, 2023 at 11:00 A.M. (IST) through VC/OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and Rules made thereunder read with MCA Circulars dated April 8, 2020, May 5, 2022 and December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular dated May, 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") along with other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI in this regard, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM, without the physical presence of the Members at a common venue.

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice convening the 63" AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 ('the Annual Report') of the Company will be sent electronically to all the members whose email address are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent ('Registrar/RTA')/ Depository Participants ('DPS'), Additionally, the Notice of the 63' AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the Company at www.hindusthanurban.com; the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com respectively, as well as of the National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

The Company is pleased to provide e-voting facility ("remote e-voting") of NSDL before as well as during the 63" AGM to all its members to cast their votes on all Resolutions set out in the Notice

The instructions for manner of participation and voting at the AGM for the members holding shares in dematerialized and physical mode will be provided in the Notice of AGM.

follow the process mentioned below: (a) Members holding shares in Demat mode are requested to update the same with their concerned

Members who have not registered their email-addresses with the Company/RTA are requested to

Depository Participant(s) (DP)/RTA of the Company, Skyline Financial Services Private Limited at compliances@skylinerta.com or info@skylinerta.com, as per the process advised by the concerned DP/RTA. Members holding shares in physical mode are requested to register/update the details in

prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with RTA of the Company, Skyline Financial Services Private Limited at compliances@skylinerta.com or info@skylinerta.com Members may download the prescribed forms from the Company's website at <a href="www.hindusthanurban.com">www.hindusthanurban.com</a>

For Hindusthan Urban Infrastructure Limited

Date: 28.08.2023 President-Finance & Secretary Place: Bhopal

# **GLOBUS POWER GENERATION LIMITED**

Regd. Office: Shyam House, Plot No. 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 Corp Office: A - 60, Naraina Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110028 Ph.: 91-11-41411071/72, Fax: 91-11-25792194

Email Id: globuscdi@gmail.com, Website: www.gpgl.in

### INFORMATION REGARDING 38™ (THIRTY-EIGHT) ANNUAL GENERAL MEETING The 38" (Thirty Eight) Annual General Meeting ("AGM") of Globus Power

Generation Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 28. 2023 at 11:30 A.M. IST through video conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses set out in the Notice of AGM in adherence to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rules made thereunder and MCA General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with MCA General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020; 17/2020 ated April 13, 2020; 20/2020 dated May 05, 2020; 19/2021 dated December 08 2021 and 02/2022 dated May 05, 2022 ("MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the SEBI Circulars dated May 12, 2020; January 15, 2021; May 13, 2022 and January 05, 2023 ("SEBI Circulars").

In Compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent through e-mail to all the members of the Company whose name appear in the Register of Members at the closing of business hours on Friday, August 25, 2023 and whose email addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial and Computer Services Pvt. Ltd./Depository Participant(s). Further, the aforesaid Notice and Annual Report will also be made available on Company's Website at www.gpgl.in and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2015 and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company shall provide facility of remote e-voting to all the members of the Company on all the businesses set out in the Notice of AGM. Further, the manner of re-mote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding the shares in dematerialized or physical form & Members who have not registered their email id, instructions and procedure related to login id and password for e-voting shall be provided in the Notice of AGM.

Manner of registering/updating e-mail addresses

(a) Shares Held in physical Form: Please register the PAN and KYC details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial and Computer Services Pvt. Ltd. at Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Complex, New Delhi -110062 or email at beetalrta@gmail.com in duly filed and signed Form ISR-1 (available on the website of the Company) along with other relevant Forms and documents.

Shares held in Demat Mode: Please contact your Depository Participant to register/ update your e-mail address and Bank Account details in your demat account, as pr the process advise by your Depository Participant.

In case of any queries, Members may contact to Company Secretary of the Company having phone number 011-41411071 or email at globus@gmail.com or to Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial and Computer Services Pvt. Ltd. at email id beetalrta@gmail.com or call at 011-29961281/82. By Order of the Board For Globus Power Generation Limited

Place: New Delhi Date: August 28, 2023

Kamini Company Secretary

## **WOODSVILLA LIMITED** CIN: L55101DL1994PLC030472

Regd. Office: E-4 2ND Floor Defence Colony New Delhi - 110024 Email Id: woodsvillaresort@gmail.com; Tel No.: +011-41552060 Website: https://www.woodsvilla.in

Public Notice – 35th Annual General Meeting

This is to inform that, the 35th Annual General Meeting ("AGM") of Woodsvilla

Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 26th September, 2023 at 05:00 p.m. IST, through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM)in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with latest circular date 10/2022 dated 28th December, 2022 other circulars Issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in

furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the 35th AGM and Annual Report for the financial year 2022-23, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant/ Registrar and Transfer Agent ("RTA") . The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing evoting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM.

The e-copy of the notice of the 35th AGM along with the Annual Report for the FY 2022-23 of the Company will be available on the website of the Company at www.woodsvilla.in. also be available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Mas Service Limited at www.masserv.com , in due course of time. The Company shall send a physical copy of the AGM Notice and Annual Report to those Members who request for the same at Woodsvillaresort@gmail.com mentioning their Folio No./DP ID and Client ID. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of 35th AGM.

Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person. In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant / RTA, please follow the process of registering the same as mentioned

Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Physical Back), PAN( Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR ( Self Holding attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd Floor, Okhla industrial area phase-ii, New Delhi 10020 alongwith letter mentioning folio no. If not registered already.) Please contact your Depositary Participant (DP) and register your

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the

email address as per the process advised by DP.

Holding

SEBI Circular.

Place: Delhi

Date: 28/08/2023

Vineeta Agrawal Company Secretary

For Woodsvilla Limited

## **VOGUE TEXTILES LIMITED**

CIN- U18101DL1992PLC049370

Regd. Office: A-206, Somdutt Chambers 1, 5 Bhikhaji Cama Place, New Delhi-110066

I. The **31<sup>st</sup> Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Voque Textiles Limited** 

NOTICE OF 31<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING. **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION** 

("the Company") will be held through Video Conferencing [(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)] on Friday, 22<sup>nd</sup> September 2023 at 02:00 P.M. (1ST) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April 2020, Circular No.17/2020 dated 13<sup>th</sup>April 2020, 20/2020 dated 5<sup>th</sup>May 2020, 02/2021 dated 13<sup>th</sup> January 2021, 21/2021 dated 14<sup>th</sup> December 2021 and 10/2022 dated 28th December, 2022 and all other relevant circulars issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company which shall be the deemed Venue of the AGM.

2. Pursuant to aforesaid circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along-with Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent to all the members whose E-mail addresses are registered with the Depository Participant(s), Company (in case of shares held in physical form). The dispatch of Notice of the AGM along-wi1h Annual Report through e-mails be completed on 01<sup>st</sup> September, 2023. The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 are available on the Company's website at https://voquetextiles.com. Notice of the AGM is also available on Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) website https://www.alankit.com. 3. Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform

provided by Company's RTA viz. Alankit Assignments Limited (Alankit). Members can

attend the AGM through [(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)] to view the live

webcast of AGM by visiting https://www.alankit.com under shareholder/members

login by using their remote e-voting login credentials and selecting the event for Company's AGM. Members who need assistance before or during the AGM may contact Alankit at 011-23541234 or 011-42541234. I. The Company is pleased to provide the facility to members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members holding share either in physical form or in dematerialized form as on Friday, 15<sup>th</sup> September 2023 (Cut-off date), can cast their vote electronically on the Ordinary

system ("remote e-voting") as provided by NSDL. The remote e-voting facility will be available during the following voting period: commencement of remote e-voting from Tuesday, 19th September 2023 at 9:00 A.M. (1ST) and to end of remote e-voting up-to Thursday, 21st September 2023 at 5:00 P.M.

and Special Businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting

(M.L.Birmiwala)

a) The remote e-voting module will be disabled by NSDL after the aforesaid dates and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

present in the AGM through [(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)] facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM; and c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Members are here by informed that any person, who becomes member of this Company

The facility for voting will also be made available during the AGM and those members

after dispatch of the Notice or the AGM through the electronic means and holding shares as on the cut-off date viz. **Friday**, 15<sup>th</sup> **September 2023**, can obtain the login ID and password by sending a request at info@alankit.com. However, if a person is already registered with Alankit for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. 8. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain

closed from Saturday, 16<sup>th</sup> September to Friday, 22<sup>nd</sup> September 2023 (both days inclusive) for the AGM and determining the names of members eligible for final Dividend on Equity shares, if declared at the AGM of the Company. ). Members who have not registered their E-mail addresses are requested to register their e-mail address with respective depository Participant(s) and members holding shares

in physical mode are requested to upload their e-mail addresses with Company's RTA, to receive copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 together-with instruction for e-voting and participation through VC/OAVM. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual for Members available in the download section of https://www.evoting.nsdl.com or Company's Registrar toll free Number 011-23541234 or send an E-mail to rta@alankit.com. Any grievances connected with the remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM e-voting during the AGM may be addressed to Mr. J.K. SINGLA, Manager-Corporate Registry (Unit: Voque Textiles Limited) Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex,

Jhandewalan Extension, New Delhi-110055. Contact Nos. 011-23541234 or For and on behalf of **Vogue Textiles Limited** 

Anil Dutt

Managing Director

**Date: 29<sup>th</sup> August, 2023** Place: New Delhi

011-42541231

DIN No.-01568921

EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED CIN: L74899DL1993PLC055697 Regd Office: No. 11, Rani Jhansi Road, (Motia Khan), M.M. Road, New Delhi 110055 Email: info@ekamleasing.com, ekam.leasing1@gmail.com;

Website: www.ekamleasing.com PUBLIC NOTICE -30TH ANNUAL GENERAL MEETING (Pursuant to MCA Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 read with Circular No. 20/

This communication is regarding the thirtieth (30th) Annual General Meeting("AGM") of M s Ekam leasing and finance Co. Limited which will be held on Wednesday, 27th September 2023 at 02:00 PM (IST) through Video Conferencing ("VC") facility/other audio-visual means ("OAVM") as permitted by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') & Securities and Exchange Board of India('SEBI') regarding the holding of AGM through VC/OAVM without physica presence of the Members at common venue and in due compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 ("The Act") and the rules made thereunder read with General Circular No: 10/2022 dated December 28, 2022; 02/2022 dated May 05, 2022 and circular Nos 21/2021 dated December 14, 2021; 02/2021 dated January 13, 2021; 20/2020 dated May 05, 2020;17/2020 dated April 13, 2020; 14/2020 dated April 08, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs('MCA') (collectively referred as "MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement

2020 dated May 5, 2020)

Circulars') to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM which will be sent to members through e-mail separately. The Company has entered into agreement with National Securities Depositories Limited (NSDL), authorized e-voting agency, for facilitating voting through electronic means ('remote e-voting') to enable the members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM as well as for the members who are present at the AGM VC facility/OAVM and wish to cast their vote during AGM, through e-voting system ("e-voting"). The detailed process and manner for attending the AGM and manner of "remote e-voting" and "e-voting" during the AGM for members holding share in physical mode dematerialization mode and for members who have not registered their email address wil

Regulations 2015 ('Listing Regulations') read with SEBI circulars dated January 5, 2023

and May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 (collectively referred as 'SEB

Members can attend and Participate in the AGM through the VC facility/OAVM only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Accordingly please note that no provisions has been made to attend and participate in the 30th AGM of the Company in person to ensure the compliances with the directives issued by the government authorities with respect abovesaid circulars. Members attending the meeting through VC facility/OAVM shall be counted for the purpose of the reckoning the Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

be provided in detail in the Notice of the AGM. In case you have any queries or issue

regarding remote e-voting /e-voting, you may contact at evoting@nsdl.co.in or call at 1800

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registral & Share Transfer Agent (RTA)/ Depositories. As per the MCA and SEBI Circulars, no physica copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report will be sent to any Member Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below for registering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Annual Report electronically and to receive Login credentials.

Additionally, the Notice of AGM along with Annual Report of the Company for the Financia Year 2022-23 will be available on the website of the Company at www.ekamleasing.com and also the website of the Bombay Stock Exchange on which the shares of the Compan are listed i.e www.bseindia.com.

I. For Members who hold shares in Electronic Form and email address not Members who hold shares in Electronic Form and have not updated their email address

are requested to update their e-mail address with the Depository Participants or with company's RTA i.e M/s Alankit Assignments Private Limited at rta@alankit.com Members are requested to provide their Demat account details (CDSL-16 digital details) beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card) AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) /can also contact to their Depository Participant(s).

For Members who hold shares in Physical Form:

Members who hold shares in Physical Form and have not updated their email address are requested to update their e-mail address by writing to the Company's RTA i.e M/s Alankit Assignments Limited at rta@alankit.com. Members are requested to provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card).

For Permanent registration of their e-mail address, Members holding shares in demain form are requested to update the same with their Depository Participant ("DPs") and to Registrar in case the Members are holding shares in physical Form. Any member in case of any query concerning participation in the Annual General Meeting

may write to the company at ekam.leasing1@gmail.com or rta@alankit.com. This notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the Company in Compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

Ekam leasing and Finance co. Limited

New Delhi

Place: Delhi

Date: 29-08-2023

By order of the Board

Khushambi Company Secretary and Compliance officer M. No.71921

financialer, epar.in

for seven consecutive years without any further notice.

Place: New Delhi

Date: 29.08.2023

Place: New Delhi

Date: 29-08-2023

**Property 1:** All That Piece And Parcel Of Entire Property Bearing No. 294, Free Hold **Property 2:** All That Piece And Parcel Of Entire Property Bearing No. 295, Free Hold

Date: 26.08.2023

2 रा तल. परमजीत टावर. सेक्टर-12. करनाल-132001 **कॉर्पोरेट कार्यालय** ्ब्लॉक-बी. बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डरंग बधकर मार्ग, वर्ली, मर्म्ब-400025, **पंजीक**त कार्यालय: "त्रिशूल", 3 रा तल, समर्थेश्वर टेम्पल के निकट, लॉ गार्डन, एलिसव्रिज: अहमदाबाद-380006

लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त

शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथ दन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय बकाया राशि के लिये एक्सिस बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा। **पह-ऋणधारक तथा गारंटर का नाम∕पता**: 1. श्री ईश्वर, पत्र किशन सिंह, निवासी : मकान सं, 2585, आदर्श नगर,

मलेरना रोड, नवज्योति स्कल के निकट, जिला फरीदाबाद, हरियाणा–121004 2. श्रीमती राज बाला, पत्नी ईश्वर, निवासी मकान सं. 2585, आदर्श नगर, मलेरना रोड, नवज्योति स्कूल के निकट, जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121004 साथ ही : श्रीमती राज बाला, पत्नी ईश्वर, निवासी : मकान सं. 92/1, ग्राम जावन, चौपाल के निकट, जिला फरीदाबाद,

**संपत्ति का विवरण:** बिक्री प्रलेख सं. 10157 के माध्यम से श्रीमती राजबाला, पत्नी ईश्वर सिंह के नाम में प्लॉट नं 2585, आदर्श नगर/मलेरना रोड, बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, माप 150 वर्ग यार्ड्स में स्थित गैर-कृषि आवासीय सम्पत्ति के इक्विटैबल मार्टगैज के ईएम पार्ट के सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी (दस्तावेज के अनुसार)ः उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः रोड/प्रवेश, पुर्व : पवन शॉ की संपत्ति, पश्चिम : पवन शॉ की संपत्ति

10 मई, 2023 चार सौ बारह मात्र)

-ऋणधारकों-गारंटरों/मार्टगैजरों को उक्त राशि का भुगतान करने के लिये 30 दिनों की सूचना दी जार्त है जिसमें विफल रहने पर इस स्चना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के अनसार गिरवी सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी।

तिथि : 29.08.2023 प्राधिकृत अधिकारी

#### ■ HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED (An energine of THE HINDUSTRIAN GROUP)

पंजीकृत कार्यालयः कंचनजंगा, (7वां तल) 18, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001 सीआईएन: L31300DL1959PLC003141, ई-मेल: investors@hindusthan.co.in वेबसाइट : www.hindusthanurban.com. दूरभाष: +91-11-23310001-05 वीडियो कान्फ्रैंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम)

द्वारा आयोजित की जाने वाली 63 वीं वार्षिक आम सभा की सचना एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कॉर्पीरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी एमसीए सर्क्युलर्स तिथि 8 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2022 तथा 28 दिसम्बर, 2022 तथा इस संदर्भ में एमसीए एवं/अथवा सेबी द्वारा जारी अन्य लागू होने वाले सर्क्युलर्स के साथ भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी सेबी सर्क्युलर तिथि 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 तथा 5 जनवरी, 2023 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में हिन्दुस्तान अर्बण इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ('कम्पनी') की 63 वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 11.00 बजे पूर्वा (आईएसटी) में वीसी (ओएवीएम द्वारा किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

एमसीए सर्क्युलर्स तथा सेबी सर्क्युलर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ 63 वीं एजीएम के आमंत्रण की सचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट ("रजिस्ट्रार/आरटीए") डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स ('डीपीएस') के पास उपलब्ध होंगे। अलग से, 63 वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.hindusthanurban.com; स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com के साथ ही साथ नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।

यह कम्पनी 63 वीं एजीएम के आमंत्रण की सचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर मतदान करने में सभी सदस्यों के लिये एनएसडीएल की ई-वोटिंग सुविधा 63 वीं एजीएम के दौरान, ('रिमोट ई-वोटिंग') सुविधा उपलब्ध करा रही है। डिमैटेरियलायज्ड तथा भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिये एजीएम में शामिल होने तथा मतदान के निर्देश एजीएम की सचना में दिये जाएंगे।

जिन सदस्यों ने कम्पनी/आरटीए के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि नीचे

क) डिमैट पद्धित में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि अपने संबंधित पार्टिसिपैन्ट्स (डीपी)/कम्पनी के आरटीए, स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पास डीपी/आरटीए के परामर्श से प्रक्रिया के अनुसार compliances@skylinerta.com अथवा info@skylinerta.com पर उसे अपडैट करा लें। ख) भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि कम्पनी के आरटीए, स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पास निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 तथा अन्य संबंधित प्रपत्रों में विवरणों को compliances@skylinerta.com अथवा info@skylinerta.com पर उसे अपडैट करा लें। सदस्यगण कम्पनी की वेबसाइट www.hindusthanurban.com से निर्धारित प्रपत्र डाउनलोड क

हिन्दुस्तान अर्बण इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिये

(एम. एल. बिरमीवाला

अध्यक्ष वित्त एवं सचिव

तिथि : 28.8.2023

ADITYA BIRLA CAPITAL

आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेथॉन कंपाउंड, वेरावल, गूजरात —

362266, शाखा कार्यालय : नं. ए/17, प्रथम तल, विजया भवन बाराखंभा मार्ग, नई दिल्ली — 110001 परिशिष्ट IV [प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 का नियम 8(1) देखें|

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेत्) जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आदित्य बिङ्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 13.03.2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं नामतः दातर सिंह वासु कंवर को, सूचना में अंकित राशि रु. 44,71,895.5 / – (रुपये चौवालीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ पिचानबे एवं पांच पैसे मात्र) का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम ध के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शिक्तयों के प्रयोगांतर्गत 26 अगस्त 2023 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार क लेन-देन रु. 44,71,895.5 / – (रुपये चौवालीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ पिचानबे एवं पांच पैसे मात्र) की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेत् आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

## अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति 1 : संपूर्ण संपत्ति सं. 294 के समस्त वह भाग तथा अंश जो स्वामित्वधारक संपूर्ण द्वितीय तल के रूप में, छत / टेरेस अधिकारों के बिना, पॉकेट 11बी, भूमि क्षेत्र माप 32 वर्ग मीटर, रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान, रोहिणी, सेक्टर–23, नई दिल्ली–110085 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर— प्लॉट नं. 315, दक्षिण— प्रवेश, पूर्व— प्लॉट नं. २९३, पश्चिम— प्लॉट नं. २९५

संपत्ति 2 : संपूर्ण संपत्ति सं. 295 के समस्त वह भाग तथा अंश जो स्वामित्वधारक संपूर्ण द्वितीय तल, छत / टेरेस अधिकारों के बिना, पॉकेट 11बी, भूमि क्षेत्र माप 32 वर्ग मीटर, रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान, रोहिणी, सेक्टर-23, नई दिल्ली-110085 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर— प्लॉट नं. 314, दक्षिण— प्रवेश, पूर्व— प्लॉट नं. 294, पश्चिम— प्लॉट नंबर 296

दिनांक : 26-08-2023 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एवासी नेटवर्क इण्डिया कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : डी-13/4, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020, भारत

दूरभाष : 0120-4024500 | ई-मेल : neeraj.khanna@in.panasonic.com कम्पनी के इक्विटी शेयरों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) डीमैट खातों में अन्तरण

एतद्द्वारा यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6), विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियमावली 2016 (''आईईपीएफ नियम'') समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के विनिधानकर्ताओं को दी जाती है। यह अधिनियम और नियम उन लाभांशों के सन्दर्भ में इक्विटी शेयरों के अनिवार्य अन्तरण का प्रावधान करते

हैं जो लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अप्रदत्त/अदावाकृत हैं। उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ऐसे विनिधानकर्ताओं को, जिनका लाभांश वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होकर लगातार सात वर्षों तक अप्रदत्त/अदावाकृत है, व्यक्तिगत रूप से सूचित कर रही है और उनसे उन्हें भेजे जा रहे पत्र-व्यवहार में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए 26 नवंबर, 2023 तक इसका दावा करने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त समय सीमा के भीतर विनिधानकर्ताओं द्वारा वैध दावे

की प्राप्ति के अभाव में, कंपनी आईईपीएफ नियमों के अनसार उक्त शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारक और जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, वे ध्यान दें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयर की राशि हस्तांतरित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। ऐसे नए शेयर प्रमाणपत्र जारी होने पर, मल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रह

कर दिए जाएंगे और गैर-परक्राम्य माने जाएंगे। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले ऐसे शेयरधारकों के मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों का हस्तांतरण कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से किया जाएगा। आईईपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने उन शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पते पर अलग-अलग नोटिस भेजे हैं, जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से अप्रदत्त/अदावाकृत हैं

अन्य बातों के अलावा, आईईपीएफ को स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण प्रदान किया गया है। शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी ने शेयरधारकों द्वारा जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) की वेबसाइट www.skylinerta.com पर फोलियो नंबर/डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी के साथ शेयरधारकों की अद्यतन सूची अपलोड कर दी है, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि कंपनी द्वारा आरटीए की वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पर्याप्त सुचना माना जाएगा इस प्रकार हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कोई अतिरिक्त लाभांश/लाभ, यदि कोई हो, भी आईईपीएफ में जमा किया जाएगा। आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित लाभांश और शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। आईईपीएफ में लाभांश और शेयरों के हस्तांतरण पर, विनिधानकर्ता आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं।

संबंधित विनिधानकर्ताओं से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे इस नोटिस की प्राप्ति पर तुरंत उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने दावा न किए गए लाभांश का दावा करें, ऐसा न करने पर कंपनी बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अधिनियम और नियमों की आवश्यकता के अनुपालन में उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगी वह जिन पर लाभांश लगातार सात वर्षों तक अप्रदत्त/अदावाकृत हो।

मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, शेयरधारक कृपया कंपनी के आरटीए, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, टेलीफोन: 011-40450193-97, ईमेल: info@skylinerta.com/ admin@skylinerta.com से संपर्क कर सकते हैं।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 29.08.2023

www.readwhere.com

पैनासोनिक एवीसी नेटवर्क्स इंडिया कंपनी लिमिटेड के लिए

कंपनी सचिव

CAPITAL

ब्रिलियट परिफोलियोज् लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः बी-09, 412, आईटीएल टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110088

ਟੇलੀ: 011-45058963, CIN: L74899DL1994PLC057507

ई-मेलः brilliantportfolios@gmail.com, वेबसाइट www.brilliantportfolios.com

29वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सुचना

रतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") रविवार, 24 सितंबर, 2023 को

पूर्वाह्न 11:30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("वीसी"/"ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की

सचना में बताए गए अनसार व्यापार को परा करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय

एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 29वीं एजीएम

की सुचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार

और ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी")/ डिपॉजिटरी के साथ के साथ पंजीकृत हैं

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर डीमटेरियलाइज्ड

रूप में हैं तो वे इसे अपने डीपी के पास पंजीकृत कराएं और यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो कंपनी/आरटीए आरटीए

ईमेल आईडी investor@masserv.com के साथ brilliantportfolios@gmail.com के तहत चिह्नित

वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.brilliantport-

folios.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। नोटिस

सदस्य केवल वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम मे

सभी सदस्यों ( भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों/जिनके मेल पते डीपी/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकत नहीं हैं '

के लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश नोटिस में दिए गए हैं

सीआईएन : L31909DL1981PLC349793

पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरवंश भवन-॥

कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046, दूरभाष : 011-49857832

इंमेल : shares@lumaxmail.com, वेबसाइट : www.lumaxworld.in/lumaxautotech

सदस्यों के लिए पोस्टल बैलट की सूचना

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि पोस्टल बैलेट नोटिस में वर्णित संकल्पों के

लिए ल्यमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की

सहमति / अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम")

की धारा 108, 110 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई है, कंपनी (प्रबंधन एवं

प्रशासन), नियम 2014, के नियम 20 और 22, यथा संशोधित ("नियम") के साध

पठित, कार्पोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.

11/2022, दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और समय-समय पर जारी अन्य संगत

परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सुचीकरण

दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 ("सूचीकरण

विनियम")-वर्तमान में लाग् इनके कोई भी वैधानिक संशोधनों अथवा पुनः

अधिनियमन सहित तथा इंस्टीटयट ऑफ कंपनी सेक्रेटीज ऑफ इंडिया

(आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवालयीन मानदंड-2

(एसएस-2) तथा अन्य लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई है, के अनुसारण में

कंपनी ने केवल उन सदस्यों को ई-मेल के जरिए पोस्टल बैलेट नोटिस प्रेषित

करने का काम सोमवार, 28 अगस्त, 2023 को पूरा कर लिया है, जिनके नाम

शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 ("कट ऑफ तिथि") को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी

स्वामियों की सूची में दर्ज हैं और जिनके ई-मेल पते डिपाजिटरीज अर्थात नेशनल

सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपाजिटरी

सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") और/अथवा कंपनी के पास

और / अथवा कंपनी रजिस्टार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात बिगशेयर सर्विसिज

ऊपर वर्णित एमसीए परिपत्रों के अनुरूप पोस्टल बैलेट नोटिस, साथ में पोस्टल

बैलेट फार्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं

भेजी जाएंगी। सदस्यों की सहमति / असहमति की सूचना केवल रिमोट ई-वोटिंग

सिस्टम ("ई-वोटिंग") के जरिए प्राप्त की जाएगी। कोई व्यक्ति, जो कि

कट-ऑफ तिथि को कारोबार के घण्टे बंद होने के समय सदस्य नहीं है, उन्हें इस

कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की

सेवाएं प्राप्त की हैं। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन पोस्टल बैलेट नोटिस

कंपनी के निदेशक मंडल ने. संकल्प दिनांक 10 अगस्त, 2023 के द्वारा श्री मनीष

गप्ता, प्रेक्टाइजिंग कंपनी सचिव, (एफसीएस 4982) को पोस्टल बैलेट और

ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए

पोस्टल बैलेट सुचना डिस्पैच करने / भेजने की समापन तिथि सोमवार.

ई-वोटिंग अवधि बधवार, 30 अगस्त, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स.)

प्रारंभ होगी और बृहस्पतिवार, 28 सितंबर, 2023 को अपराद्धा 5.00 बजे

(भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट—ऑफ तिथि पर

भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य अपना

वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकेंगे। इसके पश्चात ई-वोटिंग मॉडयुल

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के मताधिकार की परिगणना कट-ऑफ तिथि

पर व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में

पोस्टल बैलेट की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात

www.lumaxworld.in/lumaxautotech तथा साथ ही एनएसडीएल की

वेबसाइट अर्थात https://www.evoting.nsdl.com पर भी अपलोड कर दी

यदि ई-मेल पता कंपनी / कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट के पास

पंजीकत नहीं है, तो कपया ई-मेल पते के पंजीकरण तथा ई-वोटिंग हेत्

लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नलिखित प्रक्रिया का

भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे

b) अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपने संबंधित

prasadm@bigshareonline.com पर रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

(आरटीए), बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड को लिखते हुए अपने

डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट

करायें। ई-मेल पते के सफल पंजीकरण के बाद, सदस्य से अनुरोध प्राप्त

होने पर, ई-वोटिंग यूजर आईडी तथा पासवर्ड आपके ई-मेल पते पर भेज

दी जाएगी। किसी पूछताछ के लिए सदस्य shares@lumaxmail.com पर

vi. किसी भी पृष्ठताछ के लिए सदस्य https://www.evoting.nsdl.com प

Frequently Asked Questions (FAQs) का संदर्भ ले सकते हैं अथवा

उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात के आधार पर की जाएगी।

प्राइवेट लिमिटेड ("बिगशेयर") के रिकार्डस में पंजीकृत हैं।

नोटिस को केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए मान लेना चाहिए।

की टिप्पणियों में किया गया है।

28 अगस्त, 2023 है।

अनुपालन करें:

लिख सकते हैं।

स्क्रूटनाइजर के तौर पर नियुक्त किया है।

अतः सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ई-मेल पते पंजीकृत / अद्यतन करा लें।

एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।

LUMAX ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

शामिल होने की प्रक्रिया और निर्देश नोटिस में बताए गए हैं।

दिनांक: 28.08.2023

("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की जाती है।

स्थान : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

तिथि : 29.8.2023

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयान कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात- 362266 कॉर्पोरेट कार्यालय : 10वां तल, आर टेक पार्क, निर्लोन कॉम्प्लैक्स, हब मॉल के निकट, गोरेगांव (पूर्व) मुम्बई - 400063, एम एच

लिमि ( एबीएफएल ) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन ) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी कर आप ऋणधारकों (नाम एवं पता नीचे वर्णित) को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि, वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, नीचे वर्णित, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदृद्वारा ऋणधारक, नीचे वर्णित, तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्दवारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे. वर्णित राशि तथा उस पर ब्याजों के लिये आ**दित्य बिरला फाइनांस लिमिटेड (एबीएफएल**) के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकष्ट की जाती है।

2. श्री संजीव कुमार, पुत्र श्री मोहर खसरा नं. 327 जो आजाद विहार कालोनी, ग्रामः खोडा, परगना (सांकेतिक श्री मोहर, पुत्र नाथू सिंह लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) 200001 में स्थित है, का सभी भाग तथा हिस्सा. \*चौहदी \* उत्तरः संजय एवं अन्य क 5725703.26 LAN: ABFLNDDS0000067602, ABFLNDDSB प्लाट 🛧 दक्षिण : जयपाल एवं अन्य का प्लॉट 🛧 पर्व : 10 फीट रोड ;★ पश्चिमः रोड 20 फीट 0000081172 एवं ABFLNDDSB0000094807 8.6.2023 को

कते ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज लिमिटेड

कंपनी सचिव

DK JAIN

प्राधिकृत अधिकारी आदित्य बिरला फाइनांस लिमिटेड

> वोग टेक्सटाइल्स लिमिटेड सीआईएन- U18101DL1992PLC049370

पंजीकृत कार्यालय : ए-206, सोमदत्त चैंबर्स 1, 5 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बही समापन तथा ई—वोटिंग की जानकारी 1. वोग टेक्सटाइल्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') शुक्रवार 22 सितंबर 2023 को अप. 02.00 बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खंवीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम), के माध्यम से आयोजित की जायेगी, जो कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य परिपत्र क्रमांक 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, परिपत्र क्रमांक 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सं. 20/2020 दिनांक मई 2020, सं. 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सं. 21 / 2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021 एवं 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 तथा समस्त अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की सचना में निर्धारितानुसार साधारण एवं विशेष व्यवसाय के संचालन हेतु संपन्न की जायेगी। एजीएम के कार्यक्रम मानकर चलिये कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित किये जायेंगे, जो कि एजीएम का मानित स्थान माना जायेगा।

2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कंपनी (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के प्रसंग में) के साथ पंजीकृत हैं। ई–मेल के माध्यम से एजीएम की सुचना के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण-कार्य 01 सितंबर, 2023 को पुरा कर लिया जाएगा। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://voguetextiles.com पर उपलब्ध है। एजीएम की सचना, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) की वेबसाइट https://www.alankit.com पर भी उपलब्ध है। 3. सदस्यों को कंपनी के आरटीए अर्थात् अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (अलंकित) द्वारा उपलब्ध कराए

गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यगण अपने रिमोट ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके और कंपनी की एजीएम के लिए इवेंट का चयन करके शेयरधारक / सदस्य लॉगिन के तहत https://www.alankit.com पर जाकरए जीएम का सजीव प्रसारण देखने के लिए ख(वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम), के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे अलंकित से 011–23541234 या 011–42541234 पर संपर्क कर सकते हैं।

4. कंपनी, सदस्यों को एजीएम में पारित होने हेतू प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करके संतुष्ट है। जिन सदस्यों के पास शुक्रवार 15 सितंबर 2023 (कट–ऑफ तिथि) के अनुसार भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप मे शेयर हैं, वे एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई–वोटिंग'' के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार साधारण एवं विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डाल सकते हैं। 5. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा, निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी

रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ मंगलवार, 19 सितंबर 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) पर होगा तथा

रिमोट ई-वोटिंग का समापन गुरुवार, 21 सितंबर 2023 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) पर होगा।

ए) उपरोक्त तिथियों और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। उपर्युक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की बी) एजीएम के दौरान मतदान की स्विधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में [(वीसी)/अन्य

ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम)] सुविधा के माध्यम से उपस्थित वे सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपने वोट नहीं डाले हैं, तथा जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है. वे सभी एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के लिये ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल दिये हैं, वे भी एजीएम

में उपस्थित हो सकते हैं. किंतु उन्हें एजीएम में पूनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। 7. सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से एजीएम आयोजन के बाद इस कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 15 सितंबर 2023 के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह info@alankit.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए अलंकित के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिये विद्यमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। 8. एजीएम हेतू तथा समता अंशों पर अंतिम लाभांश के लिये पात्र सदस्यों के नाम निर्धारित करने हेतू कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंश अंतरण बहियां, शनिवार, 16 सितंबर से लेकर के शुक्रवार, 22 सितंबर 2023 (दोनों दिवस सिम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

इक्विटी शेयरों पर, यदि कंपनी की एजीएम में घोषित किया गया हो। 9. जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत कर लें और भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पते कंपनी के आरटीए के साथ अपलोड करें, ताकि उन्हें वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ई-वोटिंग और भागीदारी हेतू अनुदेश के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम की सूचना की प्रतियां प्राप्त करने में सूगमता हो। 10. किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग

में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार को टोल फ्री नंबर 011-23541234 पर कॉल कर सकते हैं या rta@alankit.com पर एक ई-मेल भेजें। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के दौरान वीसी / ओएवीएम ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से जुड़ी किसी भी शिकायत को श्री जे. के. सिंगला, प्रबंधक-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री (यूनिट : वोग टेक्सटाइल्स लिमिटेड) अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड, 205—208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055, संपर्क नंबर 011-23541234 या 011-42541231 को लिखकर भेजी जा सकती है। वोग टेक्सटाइल्स लिमिटेड

के लिये तथा उसकी ओर से.

दिनांक : 29 अगस्त, 2023 स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./-अनिल दत्त प्रबंध निदेशक डीआईएन नं.: 01568921

Date: 30-09-2023 next date, purpose of case, orders and judgment as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana CNR NO: PBLD03-037252-2021

Cillinal Courts, Lucillana

M/s Bhogal Sales

M/s Metro Cycle Stores

Publication Issued To: M/s Metro Cycle

Stores, Court Road Olangani, Jaunpur-

Partners/ Auth. Signatory/ Manager 2. Mr.

222002 (Uttar Pradesh) Through Its

Sarfraz Ahmed, Partner/authorized

this court that you, the above named

a direction that you should appear

signatory m/s metro cycle stores, court

road, olanganj jaunpur- 222002 (U.P.)

Whereas it has proved to the satisfaction of

accused/accused persons can't be served

in the ordinary way of service. Hence this

proclamation under 82 of code of criminal

procedure is hereby issued against you with

personally before this court on 30-09-2023

at 10:00 a.m. or within 30 days from the

date of publication of this proclamation.

take notice that, in case of default on your

part to appear as directed above the above

said case will be heard and determined as

to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_

notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

per law, in your absence. for details logon

JMIC Ludhiana

टाटा केपिटल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसूला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 TATA

(प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) चुंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के प्राधिकत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 11.05.2023 को एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमे उधारकर्ता और सह उधारकर्ताओं / गारंटरों, यानी, (1) मैसर्स जी प्रोडक्शन हाउस, दुकान नं. 136, एमपी मॉल, पीतमपुरा, दिल्ली-110088; (2) श्रीमती डिंपल भसीन, पत्नी श्री राजेश भसीन; (3) श्री राजेश भसीन, पुत्र श्री रामनाथ भसीन; और (4) सुश्री मोनिका भसीन; सभी का निवास स्थान : मकान नंबर 4/2ए, पहली मंजिल, एमसीडी स्कूल के पास, विजय नगर डबल स्टोरी, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110009; यहां भी: प्लॉट नंबर 12, दूसरी मंजिल, शनि मंदिर रोड, कल्याण विहार, दिल्ली 110009 से नोटिस में उल्लिखित राशि ऋण खाता संख्या TCFLA0359000011076396 और TCFLA0359000010891119 के माध्यम से रु.26,26,521/- सहित ब्याज और दंडात्मक ब्याज शुल्क लागत आदि देय राशि की अदायगी मांग सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने वं

उधारकर्ताओं द्वारा इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण. विशेष तौर पर उधारकर्ताओं तथ आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 26 अगस्त 2023 को प्रतीकात्मक / रचनात्मक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को, संपत्ति के साथ सौदा न करने के लिए

चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेनदेन टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को 11.05.2023 के अनुसार रु.26,26,521/- के साथ उस पर ब्याज और दंडात्मव ब्याज, प्रभार, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा। संपत्ति की अनुसूची संपत्ति नं. 1, युनिट नं. 137, पहली मंजिल, बिना छत अधिकार के, एम. पी. मॉल, प्लॉट नं. एसयू

(एल.एस.सी.), ब्लॉक – एमआईपी, पीतमपरा, दिल्ली–110088, कवर एरिया 111.66 वर्ग फट, अधिक

विवरण विशेष रूप से श्रीमती डिंपल भरीन के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख दिनांक 26.08.2019

में वर्णित है जो दस्तावेज सं. 13225, बुक नं. 1, वॉल्यूम. 8639 पेज 174 से 191 पर 30.08.2019 को पंजीकृत रूप में विधिवत पंजीकृत हुईं।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थानः दिल्ली दिनांकः 29.08.2023 कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

## **WOODSVILLA LIMITED**

CIN: L55101DL1994PLC030472 Regd. Office: E-4 2ND Floor Defence Colony New Delhi - 110024 Email Id: woodsvillaresort@gmail.com; Tel No.: +011-41552060 Website: https://www.woodsvilla.in

Public Notice – 35th Annual General Meeting

This is to inform that, the 35th Annual General Meeting ("AGM") of Woodsvilla Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 26th September, 2023 at 05:00 p.m. IST, through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM)in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with latest circular date 10/2022 dated 28th December, 2022, other circulars Issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the 35th AGM and Annual Report for the financial year 2022-23, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant/ Registrar and Transfer Agent ("RTA") . The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing evoting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM.

The e-copy of the notice of the 35th AGM along with the Annual Report for the FY 2022-23 of the Company will be available on the website of the Company at www.woodsvilla.in, also be available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Mas Service Limited at www.masserv.com , in due course of time. The Company shall send a physical copy of the AGM Notice and Annual Report to those Members who request for the same at Woodsvillaresort@gmail.com mentioning their Folio No./DPID and Client ID.

The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of 35th AGM Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person.

In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant / RTA, please follow the process of registering the same as mentioned

Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and

Physical Back), PAN( Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR ( Self

Holding attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd Floor, Okhla industrial area phase-ii, New Delhi 10020 alongwith letter mentioning folio no. If not registered already.)

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the For Woodsvilla Limited

Vineeta Agrawal Date: 28/08/2023

Place: Delhi

Company Secretary

कणिका इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड

(CIN:U65993TN1979PLC050181)

पंजी. कार्यालयः डालमियापरम. तिरुचिरापल्ली

डी.टी. तमिलनाडु-621651

कॉर्पोरेट कार्यालय: ७एफ-७एच (७वां तल),

मोहिन्द्रा फास्टनर्स लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1995PLC064215

रजि. कार्यालयः 304 गुप्ता आर्केड, इंदर एन्क्लेव, दिल्ली-रोहतक रोड, नई दिल्ली-110087

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजअल साधनों से आयोजित होने वाली

वेबसाइटः www.mohindra.asia ईमेल आईडीः csnidhipathak@mohindra.asia फोनः +91-11-46200400,46200401 फैक्सः +91-11-46200444

29वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि:

1. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित इस संबंध में एमसीए द्वारा जारी पिछले परिपत्रों (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 (सामृहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) जो कम्पनियों को 30 सितंबर, 2023 तक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमित देता है, के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को सुबह 11:30 बजे (भा.मा.स.) किसी कॉमन स्थान पर कंपनी के सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 'वीसी'/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों 'ओएवीएम' के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

2. सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में भागीदारी की प्रक्रिया 29वीं एजीएम की सचना में प्रदान की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

3. सदस्य आगे ध्यान दें कि उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को उचित समय पर भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी/शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ बेनपोज तिथि यानी शुक्रवार 25 अगस्त, 2023 तक पंजीकृत हैं। भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 29वीं एजीएम की सुचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्त होगी। वार्षिक रिपोर्ट की कोई हार्ड कॉपी सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। 29वीं एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट http://mohindra.asia/mfl/shareholder corner.html और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.msei.in पर भी उपलब्ध होगी।

4. उन सदस्यों के लिए जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी/शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ अपना ईमेल पता और संपर्क नंबर पंजीकृत नहीं किया है और यदि आपने लाभांश, यदि कोई है, सीधे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम ('इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट') के माध्यम से बैंक खातों में प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते के आदेश को अपडेट नहीं किया है तो, आप कृपया 29वीं एजीएम के नोटिस के नोट्स में प्रदान की गई प्रक्रिया/निदेशों का पालन करके इसे पंजीकृत/अपडेट कर सकते हैं:

भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए: कंपनी के आरटीए यानी स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153/ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 पर ईमेल आईडी compliances@skylinerta.com के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें। सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-I/P/CIR/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुसार, कंपनी ने भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को केवाईसी विवरण प्रस्तृत करने के लिए पत्र भेजा है जो उनके संबंधित फोलियो में पंजीकृत नहीं हैं। डी-मैट रूप में रखे गए शेयरों के लिए: अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने डीमैट खाते

में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

5. कंपनी अपने सभी सदस्यों को 29वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सविधा भी प्रदान करेगी। एजीएम में भाग लेने/शामिल होने के निर्देश और रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) के माध्यम से और एजीएम के दौरान उन सदस्यों द्वारा ई-वोटिंग जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकत नहीं किया है. वोट डालने का तरीका कंपनी के साथ 29वीं एजीएम के नोटिस के नोट्स में प्रदान किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया इसे देखें। यह विज्ञापन एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी

किया जा रहा है।

निधि पाठक

बोर्ड के आदेशानुसार मोहिन्द्रा फास्टनर्स लिमिटेड के लिए

हंसालय बिल्डिंग. 15 बाराखम्बा रोड. नई दिल्ली-110001 ईमेलः support@kanikainvestment.com; फोन नं. 011-41070069 पंजीकरण प्रमाणपत्र गुम होने के लिये सार्वजनिक सुचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एनएफएफर्सी का व्यवसाय करने के लिये कणिका इन्वेस्टमेन्द लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक, चेन्नई द्वारा जारी पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र (CoR No. B-

07.00744 तिथि 1.9.2023) गुम हो गया है तथ नहीं मिल रहा है। यदि मिले उसे कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर कम्पनी को लौटा दें। पनः जनता के सतर्क किया जाता है कि अवांछित तत्वों द्वारा उक्त प्रमाणपत्र का दष्प्रयोग नहीं करें। कत्ते. कणिका इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड

संजय नवीन गोवन प्रबंध निदेशक

तिथि: 28 अगस्त, 2023

एनएसडीएल से 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई—मेल अनुरोध भेज सकते हैं। vii. ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:-सुश्री पल्लवी म्हात्रे नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड

> युनिटः ल्युमैक्स ऑटो टैक्नोलॉजीज लिमिटेड फोन: 022-4886 7000 और 022-2499 7000 | ई-मेल: evoting@nsdl.co.in viii. ई-वोटिंग सहित पोस्टल बैलेट के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए सदस्य संपर्क कर सकते हैं:--

श्री पंकज महेन्द्र कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी ल्युमैक्स ऑटो टैक्नोलॉजीज लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 28 अगस्त, 2023

फोनः +0124-4760000 | ई-मेल: pankaj.mahendru@lumaxmail.com ix. पोस्टल बैलेट (ई-वोटिंग के माध्यम से) का परिणाम कंपनी के पंजीकृत

कार्यालय पर शनिवार 30 सितंबर, 2023 को 5.00 बजे अप. (मा.मा.स.) अथवा इससे पहले घोषित किया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट सहित पोस्टल बैलेट के परिणाम कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.lumaxworld.in/lumaxautotech तथा एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात https://www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। ये परिणाम साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को सूचित किए जाएंगे।

कृते ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंकज महेन्द्र कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी आईसीएसआई सदस्यता संख्याः A28161

स्थानः नई दिल्ली

बोर्ड के आदेश से

दिनांक: 29.08.2023

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी